

AR306

क्रमांक नं. 306

Roll No. :

प्रश्न प्रकाशित : (d)

क्रमांक वर्तमान : (e)

प्रश्न लिखित : (b)

क्रमांक लिखित : (c)

वर्षाची विद्यार्थी विद्यालयाची बोर्ड विद्यालयाची बोर्ड विद्यालयाची बोर्ड

2020

ESTIMATING AND SPECIFICATIONS

निर्धारित समय : तीन घंटे

[अधिकतम अंक : 70]

Time allowed : Three Hours

[Maximum Marks : 70]

नोट : (i) प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, शेष में से किन्हीं चार के उत्तर दीजिये।

Note : Question No. 1 is compulsory, answer any FOUR questions from the remaining.

(ii) प्रत्येक प्रश्न के सभी भागों को क्रमबाट एक साथ हल कीजिये।

Solve all parts of a question consecutively together.

(iii) प्रत्येक प्रश्न को नये पृष्ठ से प्रारम्भ कीजिये।

Start each question on fresh page.

(iv) दोनों भाषाओं में अन्तर होने की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य है।

Only English version is valid in case of difference in both the languages.

1. (1) विस्तृत प्राक्कलन बनाते समय कौन से मुख्य कारकों का ध्यान रखते हैं ?

(a) सामग्रियों की मात्रा (b) सामग्रियों की उपलब्धता

(c) सामग्रियों का परिवहन

(d) उपरोक्त सभी

The main factors to be considered while preparing a detailed estimate is

(a) Quantity of the materials

(b) Availability of the materials

(c) Transportation of the materials

(d) All of the above

(2) प्राक्कलन की "लम्बी तथा छोटी दीवार" विधि में लम्बी दीवार की लम्बाई दीवार और के बीच केन्द्र से केन्द्र दूरी है।

(a) दीवार की चौड़ाई (b) एक चौथाई चौड़ाई दीवार के दोनों ओर

(c) आधी चौड़ाई दीवार के दोनों ओर (d) एक तिहाई चौड़ाई दीवार के दोनों ओर

In "Long wall and short wall" method of estimate the length of long wall is the centre to centre distance between the walls and

(a) breadth of the wall

(b) one fourth breadth of wall on each side

(c) half breadth of wall on each side

(d) one third breadth of wall on each side

(3) प्राक्कलन में मध्य रेखा विधि विशेष रूप में किन इमारतों में काम में लेते हैं ?

- (a) आयताकार ईमारतें
- (b) वृताकार ईमारतें
- (c) षट्भुजीय ईमारतें
- (d) उपरोक्त सभी

The centre line method is specially adopted for estimating buildings

- (a) Rectangular buildings
- (b) Circular buildings
- (c) Hexagonal buildings
- (d) All of the above

(4) संशोधित प्राक्कलन बनाया जाता है जब वास्तविक स्वीकृत प्राक्कलन में भिन्नता होती है

- (a) 5 प्रतिशत
- (b) 7 प्रतिशत
- (c) 10 प्रतिशत
- (d) 15 प्रतिशत

The revised estimate should be made when the original sanctioned estimate exceeded by

- (a) 5%
- (b) 7%
- (c) 10%
- (d) 15%

(5) विस्तृत प्राक्कलन में क्षेत्रफल मापने की शुद्धता होती है

- (a) 0.02 वर्गमीटर
- (b) 0.01 वर्गमीटर
- (c) 0.001 वर्गमीटर
- (d) 0.1 वर्गमीटर

In detailed estimate area should be measured to correctness to

- (a) 0.02 sq.m.
- (b) 0.01 sq.m.
- (c) 0.001 sq.m.
- (d) 0.1 sq.m.

(6) प्राक्कलन में औजारों एवम् संयंत्रों की लागत अनुमानित लेते हैं

- (a) 1 से 1½ प्रतिशत
- (b) 2 से 3 प्रतिशत
- (c) 4 से 5 प्रतिशत
- (d) 10 प्रतिशत

In estimate approximately cost of tools and plants should be taken

- (a) 1 to 1½%
- (b) 2 to 3%
- (c) 4 to 5%
- (d) 10%

- (7) इमारतों के प्राक्कलन में विद्युतीकरण के लिए अनुमानित लागत लेते हैं _____ (लगभग 01 (1))
- (a) 6 प्रतिशत (b) 10 प्रतिशत
 (c) 8 प्रतिशत (d) 4 प्रतिशत

In buildings estimate the approximately cost of electrification should be taken

(a) 6% (b) 10%
 (c) 8% (d) 4%

- (8) सबसे भरोसेमंद प्राक्कलन है _____ (लगभग 01 (1))
- (a) विस्तृत प्राक्कलन (b) अनुपूरक प्राक्कलन
 (c) प्रारम्भिक प्राक्कलन (d) घन दर प्राक्कलन

The most reliable estimate is _____ (लगभग 01 (1))

(a) Detailed estimate (b) Supplementary estimate
 (c) Preliminary estimate (d) Cube rate estimate

- (9) प्रबलित सीमेन्ट कंक्रीट का कार्य प्रतिदिन प्रति मिली कर सकता है (लगभग) (लगभग 01 (1))
- (a) 3 घन मीटर (b) 5 घन मीटर
 (c) 10 घन मीटर (d) 1 घन मीटर

R.C.C. work done by per day per mason (approximately) (लगभग 01 (1))

(a) 3 cubic metre (b) 5 cubic metre
 (c) 10 cubic metre (d) 1 cubic metre

- (10) मिट्टी की खुदाई का कार्य साधारण मिट्टी में प्रतिदिन प्रति मजदूर करता है (लगभग 01 (1))
- (a) 2 घन मीटर (b) 5 घन मीटर
 (c) 10 घन मीटर (d) 3 घन मीटर

Earthwork excavation in ordinary soil per day per labour should be (लगभग 01 (1))

(a) 2 cubic metre (b) 5 cubic metre
 (c) 10 cubic metre (d) 3 cubic metre

(11) 10 घन मीटर इंट चिनाई में, 1 : 6 सीमेन्ट मसाले में सीमेन्ट की मात्रा होती है

- | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| (a) 0.33 घन मीटर | (b) 0.43 घन मीटर | (c) 0.53 घन मीटर | (d) 0.75 घन मीटर |
|------------------|------------------|------------------|------------------|

In 10 cubic metre brick masonry, 1 : 6 cement mortar the quantity of cement is

- | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| (a) 0.33 cubic metre | (b) 0.43 cubic metre | (c) 0.53 cubic metre | (d) 0.75 cubic metre |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

(12) 10 घन मीटर सीमेन्ट कंक्रीट में (अनुपात 1 : 4 : 8) रोडी, बालू, सीमेन्ट की मात्रा होती है
(घन मीटर में)

- | | |
|------------------|------------------|
| (a) 8.4 4.2 2.8 | (b) 8.8 4.4 2.2 |
| (c) 9.2 4.6 1.15 | (d) 9.2 4.8 0.80 |

In 10 cubic metre cement concrete (ratio 1 : 4 : 8) the quantity of aggregates, sand and cement are _____ (in cubic metre)

- | | |
|------------------|------------------|
| (a) 8.4 4.2 2.8 | (b) 8.8 4.4 2.2 |
| (c) 9.2 4.6 1.15 | (d) 9.2 4.8 0.80 |

(13) एक घन मीटर दीवार बनाने में कितनी प्रथम श्रेणी इंटों की आवश्यकता होगी ?

- | | |
|----------|---------|
| (a) 1500 | (b) 100 |
| (c) 300 | (d) 500 |

Number of first class bricks required for making one cubic metre wall are

- | | |
|----------|---------|
| (a) 1500 | (b) 100 |
| (c) 300 | (d) 500 |

(14) दर विश्लेषण में ठेकेदार का लाभ सामान्यतः लेते हैं

- | | |
|----------------|----------------|
| (a) 10 प्रतिशत | (b) 15 प्रतिशत |
| (c) 20 प्रतिशत | (d) 5 प्रतिशत |

In rate analysis the profit of contractor generally taken

- | | |
|---------|---------|
| (a) 10% | (b) 15% |
| (c) 20% | (d) 5% |

(15) सामान्यतः धरन में इस्पात (स्टील) की मात्रा लेते हैं

- (a) 0 से 1 प्रतिशत
- (b) 1 से 2 प्रतिशत
- (c) 3 से 4 प्रतिशत
- (d) 5 से 6 प्रतिशत

Generally the quantity of steel in beam is taken as

- (a) 0 to 1%
- (b) 1 to 2%
- (c) 3 to 4%
- (d) 5 to 6%

(16) 50 किलोग्राम सीमेन्ट कट्टे का आयतन होता है -

- (a) $\frac{1}{10}$ घन मीटर
- (b) $\frac{1}{20}$ घन मीटर
- (c) $\frac{1}{30}$ घन मीटर
- (d) $\frac{1}{40}$ घन मीटर

Volume of 50 kg cement bag is taken as

- (a) $\frac{1}{10}$ cubic metre
- (b) $\frac{1}{20}$ cubic metre
- (c) $\frac{1}{30}$ cubic metre
- (d) $\frac{1}{40}$ cubic metre

(17) साधारण विशिष्टियों में सील रोक रद्दा की मोटाई व सीमेन्ट कंक्रीट का अनुपात होता है

- (a) 5.0 सेमी 1 : $1\frac{1}{2}$: 3
- (b) 5.0 सेमी 1 : 2 : 4
- (c) 2.5 सेमी 1 : 2 : 4
- (d) 2.5 सेमी 1 : $1\frac{1}{2}$: 3

In general specifications, the thickness of DPC and Ratio of cement concrete is taken as

- (a) 5.0 cm 1 : $1\frac{1}{2}$: 3
- (b) 5.0 cm 1 : 2 : 4
- (c) 2.5 cm 1 : 2 : 4
- (d) 2.5 cm 1 : $1\frac{1}{2}$: 3

(18) सफेदी लेपन में सामान्यतः गोंद की मात्रा लेते हैं

- (a) 100 ग्राम 16 लीटर में
- (b) 150 ग्राम 16 लीटर में
- (c) 100 ग्राम 20 लीटर में
- (d) 150 ग्राम 20 लीटर में

Generally in white washing the quantity of gum is taken as

- (a) 100 gm in 16 litres
- (b) 150 gm in 16 litres
- (c) 100 gm in 20 litres
- (d) 150 gm in 16 litres

(19) माप लेने का सही क्रम है

- (a) लम्बाई, गहराई, चौड़ाई
- (b) गहराई, लम्बाई, चौड़ाई
- (c) लम्बाई, चौड़ाई, गहराई
- (d) उपरोक्त सभी

What is correct order of taking measurement ?

- (a) length, depth, width
- (b) depth, length, width
- (c) length, width, depth
- (d) All of the above

(20) भवनों के प्राक्कलन में अनुमानित मजदूरी पर व्यय लेते हैं

- (a) 10 प्रतिशत
- (b) 20 प्रतिशत
- (c) 50 प्रतिशत
- (d) 30 प्रतिशत

In building estimate, approximately labour cost taken

- (a) 10%
- (b) 20%
- (c) 50%
- (d) 30%

(21) "कार्य आदेश" की सीमा होती है

- (a) ₹ 1,000
- (b) ₹ 2,000
- (c) ₹ 50,000
- (d) ₹ 1,00,000

Limit of "Work Order" is

- (a) ₹ 1,000
- (b) ₹ 2,000
- (c) ₹ 50,000
- (d) ₹ 1,00,000